

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
23.07.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या : *38.

आंध्र प्रदेश द्वारा परमाणु संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान की पेशकश

*38. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार रूसी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु आन्ध्र प्रदेश द्वारा स्थान दिए जाने की पेशकश पर विचार कर रही है, जिसे मूल रूप से पूर्वी भारत में स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई थी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार राज्य में परमाणु ईंधन परिसर स्थापित करने पर विचार कर रही है; और
- (ग) यदि हाँ, तो परिव्यय, संस्थापित क्षमता, रोजगार सृजन और इसके पूरा होने की निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क)
से एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।
(ग)
तक

* * * * *

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

“आंध्र प्रदेश द्वारा परमाणु संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान की पेशकश” के बारे में दिनांक 23.07.2015 को डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव द्वारा राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *38 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

- (क) रूसी प्रौद्योगिकी पर आधारित दूसरे नाभिकीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच विचार-विमर्श प्रगत अवस्था में है।
- (ख) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने, निकट भविष्य में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन का संविरचन करने के लिए एक ईंधन संविरचन सुविधा की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तदनुसार, सुविधा की स्थापना के लिए भूमि, बिजली तथा पानी की आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों नामतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा ओडिशा को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे सुविधा की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल (स्थलों) का पता लगाएं। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श प्रगत अवस्था में है।
- (ग) स्थापित क्षमता, वित्तीय परिव्यय, नए संभावित कार्यों की संख्या, और सुविधा के पूरा किए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा का पता, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के एक भाग के रूप में उस समय लगाया जाएगा जब इस परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा।
